



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष 1931 (श0)
(सं0 पटना 655) पटना, बुधवार, 30 दिसम्बर 2009

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

21 दिसम्बर 2009

सं० 14/एम 7-279/09-2717—बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-30 में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार वीर कुवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा का 2009-2010 शैक्षणिक सत्र के दौरान परीक्षा के परिणामों की घोषणा निम्न तालिका के अनुसार करने का आदेश देती है।

VEER KUNWAR SINGH UNIVERSITY, ARA

SL.NO	Examination	year	Date of Examination	Date of Result
1	Degree part-I	2010	26.04.10 to 14.05.10	15.06.10
2	Degree part-II	2010	01.04.10 to 25.04.10	25.05.10
3	Degree part-III	2010	01.04.10 to 21.04.10	21.05.10
4	P.G.(Previous)	2010	01.05.10 to 15.05.10	15.06.10
5	P.G.(Final)	2010	01.05.10 to 15.05.10	15.06.10
6	L.L.B. part-I	2010	02.05.10 to 15.05.10	15.06.10
7	L.L.B. part-II	2010	02.05.10 to 15.05.10	15.06.10
8	L.L.B. part-III	2010	16.04.10 to 30.04.10	30.05.10

2. उक्त विश्वविद्यालय उक्त तालिका के अनुसार परीक्षा आयोजित करेंगे । साथ ही निर्धारित समय से पूर्व परिणामों की घोषणा करेंगे ।
3. उक्त के अनुसार विश्वविद्यालय एवं उसके अंगीभूत/ संबद्ध महाविद्यालयों के सभी पदाधिकारी, कर्मी, वीक्षक तथा परीक्षा से संबंध रखनेवाले सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड विधान 1860 के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ।
4. उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय एवं उसके अंगीभूत /संबंध महाविद्यालय अपना पाठ्यक्रम पूरा करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में भी विशेष वर्ग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।
5. एकेडमिक कैलेंडर को शतप्रतिशत अनुपालन करने एवं शैक्षणिक सत्र को नियमित करने हेतु आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम एवं परीक्षातालिका को कोंडेंस(condense) किया जा सकता है, विधिवत पाठ्ययोजना (Lesson plan) को भी आवश्यकतानुसार लागू किया जा सकता है ।
6. वाकआउट/स्टेआउट तथा अन्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले छात्र/छात्राओं की पुनर्परीक्षा नहीं होगी ।
7. छात्र छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी, 75%से कम उपस्थिति रखने वाले छात्र/छात्राओं को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के०के०पाठक,
सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 655-571+50-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>